

फ़ा.सं.19/01/2018 -गो-1/1

कर्मचारी चयन आयोग

गोपनीय- 1/1 अनुभाग

कनिष्ठ अभियंता (सिविल,वैद्युत,यांत्रिकी, गुणवत्ता सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा, 2018- अभ्यर्थियों को शॉर्ट-लिस्ट कर दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाने के लिए प्रश्न-पत्र-II के परिणाम की घोषणा।

कनिष्ठ अभियंता (सिविल,वैद्युत,यांत्रिकी, गुणवत्ता सर्वेक्षण तथा संविदा) परीक्षा, 2018 के प्रश्नपत्र-I का परिणाम दिनांक 12.12.2019 को घोषित किया गया था और दिनांक 27.12.2019 को एक अतिरिक्त परिणाम घोषित किया गया था। उक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र-I के परिणाम के आधार पर, 10,635 अभ्यर्थियों (सिविल: 8697 एवं वैद्युत/ यांत्रिकी:1938) ने प्रश्न-पत्र-II में बैठने के लिए अर्हता-प्राप्त की थी। उक्त परीक्षा का प्रश्नपत्र-II दिनांक- 29.12.2019 को आयोजित किया गया था।

2. आयोग द्वारा निर्धारित कट-ऑफ अंक (प्रश्न-पत्र-I+प्रश्न-पत्र-II)के आधार पर दस्तावेज सत्यापन के लिए अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों का ब्योरा निम्नानुसार है:-

I. सिविल अभियांत्रिकी:

	अजा	अजजा	अपिव	आकव	अना.	अ.दि.	श्र.दि.	योग
कट ऑफ अंक (प्रश्नपत्र-I+प्रश्नपत्र-II)	193.68	201.54	209.38	229.05	250.49	162.01	132.68	---
उपलब्ध अभ्यर्थी	649	402	1660	599	456*	22	12	3800

*इसके अतिरिक्त, अना. कट-ऑफ पर अर्हक 89 अजा., 112 अजजा., 661 अपिव, 361 आकव एवं 01 अ.दि. अभ्यर्थियों को उनकी संबंधित श्रेणियों में ही दिखाया गया है।

II. वैद्युत/ यांत्रिकी अभियांत्रिकी:

	अजा	अजजा	अपिव	आकव	अना.	अ.दि.	श्र.दि.	योग
कट ऑफ अंक (प्रश्नपत्र-I+प्रश्नपत्र-II)	217.74	215.52	255.56	298.93	304.61	223.81	148.39	---
उपलब्ध अभ्यर्थी	178	111	373	98	97*	16	10	883

*इसके अतिरिक्त, अना. कट-ऑफ पर अर्हक 45 अजा., 26 अजजा., 163 अपिव, 83आकव एवं 01 अ.दि. अभ्यर्थियों को उनकी संबंधित श्रेणियों में ही दिखाया गया है ।

3. यहां दी गई सूचियां अंतिम हैं। जिन अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक सूची में दिए गए हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा, अभ्यर्थिता परीक्षा की विज्ञप्ति में पद के लिए यथा-निर्धारित पात्रता की सभी शर्तों/अपेक्षाओं को पूरा करने तथा साथ ही, आवेदन पत्रों, प्रवेश पत्रों आदि पर उनके फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, हस्तलेख, वरीयता इत्यादि के संदर्भ में उनकी पहचान के पूर्ण सत्यापन के अध्यक्षीन है। यदि सत्यापन करने पर यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी इनमें से पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करता है तो अंतिम चयन के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। परिणाम में शामिल सभी अर्हक अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होना होगा। जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होते हैं, अंतिम चयन के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. दस्तावेज सत्यापन दिनांक 28.09.2020 (अन्तरिम) से शुरू किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने वाले अर्हक अभ्यर्थियों का प्रवेश-पत्र, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों पर दस्तावेज सत्यापन शुरू होने से पहले अपलोड कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र डाउनलोड नहीं कर पा रहे हों, वे तत्काल संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं। प्रवेश-पत्र डाउनलोड सुनिश्चित करने का दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थियों का है।

5. अर्हताप्राप्त तथा गैर-अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों के अंक आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 15.09.2020 को प्रदर्शित किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपनी पंजीकरण संख्या एवं पंजीकृत पासवर्ड का उपयोग करके और तदंतर अभ्यर्थी डैशबोर्ड के परिणाम/अंक लिंक पर क्लिक करके अपने-अपने अंक दिनांक 15.09.2020 से 14.10.2020 तक देख सकते हैं।

अवर सचिव (गोपनीय-1/1)

11.09.2020